

# श्री देव सुमन विश्वविद्यालय

## टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

### Syllabus of Diploma in Yoga

#### डिप्लोमा इन योग पाठ्यक्रम

क्र. सं.	प्रश्न पत्र विवरण	अंक
1	योग के आधारभूत तत्व	100
2	हठयोग के सिद्धान्त	100
3	मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं योग	100
4	पातंजल योगसूत्र	100
5	स्वास्थ्य एवं योग चिकित्सा	100
6	योग क्रियात्मक-I	100
7	योग क्रियात्मक-II	100
कुल अंक		700

- पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यता: 10+2

81 मार्च 2020  
10.20

Devi Devi Nanda Technical School  
लालौली, बाँधगढ़ विहार  
(प्रो. द्विवेदी चन्द्र भारदावा)  
(मि. 9412025142)

विषयालय  
योग विज्ञान विषय  
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय  
हीमाचल-249402 उत्तराखण्ड  
(मो. 9258369621)

विषयालय  
योग विज्ञान विषय  
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय  
हीमाचल-249402 उत्तराखण्ड  
(मो. 9258369603)

## प्रथम पत्र

### योग के आधारभूत तत्व

100 अंक

समय 3 घंटा

नोट: परीक्षक प्रत्येक इकाई से दो प्रश्न देकर एक प्रश्न करने का निर्देश देंगे जो 20 अंकों का होगा।

इकाई प्रथम- अर्थ परिभाषा

योग शब्द का अर्थ, योग की परिभाषायें एवं योग का उद्देश्य, योग का इतिहास एवं योग की परंपरा, योग सम्बन्धी भाष्मक धारणायें, आधुनिक जीवन में योग की उपयोगिता

इकाई द्वितीय- विभिन्न योग ग्रन्थों का परिचय

पातंजल योग सूत्र, श्री मद्भगवद्गीता, योग वाशिष्ठ, शिव सहिता, सिद्धसिद्धांत पद्धति, हठ रत्नावली

तृतीय इकाई - दर्शन में योग का स्वरूप

वेद, उपनिषद, पुराणों, गीता, आयुर्वेद में योग का स्वरूप, भारतीय पड़दर्शन में योग का स्वरूप

इकाई चतुर्थ- योग के विभिन्न प्रकार

राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, हठयोग

पंचम इकाई - समकालीन योगियों का परिचय

गुरुकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महर्षि रमण, परमहंस योगानन्द, स्वामी शिवानंद, स्वामी सत्यानन्द, स्वामी कुवलयानन्द

सन्दर्भ सूची

योग विज्ञान - स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती

वेदों में योग विद्या - स्वामी दिव्यानंद

योग मनोविज्ञान - शांतिप्रकाश आतेरय

भारतीय दर्शन - आचार्य बलदेव उपाध्याय

अल्पनिषिद्धिक अध्यात्म विज्ञान - डॉ ईश्वर भारद्वाज

कल्याण (योग तत्वांक) - गीताप्रेस गोरखपुर

कल्याण (योगांक) - गीता प्रेस गोरखपुर

भारत के संत महात्मा - रामलाल

भारत के महान योगी - विश्वनाथ मुखर्जी

64  
विष्णुप्रसाद  
योग विज्ञान विभाग  
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय  
हारिद्वार-249402 उत्तराखण्ड

Medical Sci.  
श्रीहारि Vish  
1994

## द्वितीय पत्र

### हठयोग के सिद्धान्त

100 अंक

समय 3 घंटा

नोट: परीक्षक प्रत्येक इकाई से दो प्रश्न देकर एक प्रश्न करने का निर्देश देंगे जो 20 अंकों का होगा।

#### प्रथम इकाई - अर्थ परिभाषा

हठयोग का अर्थ, परिभाषायें एवं हठयोग का उद्देश्य, हठयोग का इतिहास एवं हठयोग की परंपरा, हठयोग सम्बन्धी भ्रातियाँ, हठयोग की उपयोगिता

#### द्वितीय इकाई - हठयोग के आधारभूत तत्व (घेरण्ड संहिता एवं हठप्रदीपिका )

हठयोग अभ्यास हेतु उचित स्थान, ऋतु व काल, हठयोग हेतु पथ्यापथ्य निर्देश, मिताहार की अवधारणा, साधना में साधक-बाधक तत्व, हठसिद्धि के लक्षण

#### तृतीय इकाई - घेरण्ड संहिता

घटशुद्धि की अवधारणा, शोधन कर्म का उद्देश्य, षट्कर्म- नेति, धौति एवं वस्ति कर्म की विधि, लाभ व सावधानियाँ, षट्कर्म- नौली, त्राटक एवं कपालभाति की विधि, लाभ व सावधानियाँ

#### चतुर्थ इकाई - हठप्रदीपिका

हठप्रदीपिका में वर्णित आसनों की विधि, लाभ व सावधानियाँ, हठप्रदीपिका में वर्णित प्राणायामों की विधि, लाभ व सावधानियाँ, हठप्रदीपिका में वर्णित मुद्रा-बन्ध की विधि, लाभ व सावधानियाँ

#### पंचम इकाई - हठप्रदीपिका

नाद का स्वरूप, नादनुसंधान की विधि, कुंडलिनी का स्वरूप एवं जागरण की विधि, समाधि का स्वरूप

#### सन्दर्भ

हठयोग प्रदिपिका- प्रकाषक कैवल्यधाम लोणावाला

घेरण्ड संहिता- प्रकाषक कैवल्यधाम, लोणावाला

गोरक्ष संहिता- गोरक्षनाथ

भक्तिसागर- स्वामि चरणदास


योगासन विज्ञान- स्वामि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी


योग परिचय - पीताम्बर झा

सरल योगासन - डा० ईश्वर भारद्वाज

आसन, प्राणायाम, मुद्रा बन्ध - स्वामी सत्यानन्द

बहिरंग योग - स्वामी योगेश्वरानन्द

  
विष्णुगांधी  
योग विज्ञान संस्थान  
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय  
लखियार-249402 उत्तराखण्ड

  
राजेश शर्मा  
राजेश शर्मा  
राजेश शर्मा

## तृतीय पत्र

### मानव शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं योग

समय 3 घंटा

100 अंक

नोट: परीक्षक प्रत्येक इकाई से दो प्रश्न देकर एक प्रश्न करने का निर्देश देंगे जो 20 अंकों का होगा।

#### प्रथम इकाई- अर्थ परिभाषा

मानव शरीर की परिभाषा, संक्षिप्त परिचय, कोशिका संरचना व कार्य, उत्तक संरचना व कार्य, उत्तक के प्रकार  
द्वितीय इकाई - शरीर के प्रमुख संस्थानों का सामान्य परिचय

अस्थि तंत्र की संरचना व कार्य, संधियों की सामान्य जानकारी, मेरुदंड की संरचना व कार्य, मांसपेशियों के प्रकार,  
रचना व कार्य, मांसपेशियों एवं अस्थि तंत्र पर योग का प्रभाव

#### तृतीय इकाई - शरीर के प्रमुख संस्थानों का सामान्य परिचय

पाचन संस्थान की संरचना, पाचन संस्थान के कार्य, पाचन क्रिया- कार्बोज, वसा, प्रतनक के पाचन की प्रक्रिया,  
पाचन संस्थान पर योग का प्रभाव

#### चतुर्थ इकाई - शरीर के प्रमुख संस्थानों का सामान्य परिचय

श्वसन तंत्र की संरचना व श्वसन प्रक्रिया, श्वसन दर, रक्तवह संस्थान का विस्तृत वर्णन, श्वसन तंत्र एवं रक्तवह संस्थान  
पर योग का प्रभाव

#### पंचम इकाई- शरीर के प्रमुख संस्थानों का सामान्य परिचय

उत्सर्जन तंत्र की संरचना व कार्य, अंतःस्रावी ग्रंथि प्रणाली, तंत्रिका तंत्र का परिचय, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी  
ग्रंथियों एवं तंत्रिका तंत्र पर योग का प्रभाव

#### सन्दर्भ:

सुश्रुत (शरीर स्थान) - डॉ. भास्कर गोविन्द घाणेकर

शरीर रचना विज्ञान - डॉ. मुकुन्द स्वरूप वर्मा

शरीर क्रिया विज्ञान- डॉ. प्रियवृत शर्मा

शरीर रचना व क्रिया विज्ञान- डॉ. एस. आर. वर्मा

आयुर्वेदीय क्रिया शरीर - वैद्य रणजीत राय देसाई

प्रियवृत शर्मा  
प्राचीन विज्ञान एवं तंत्रिका  
प्राचीन विज्ञान एवं तंत्रिका (उत्तराखण्ड)  
प्राचीन विज्ञान एवं तंत्रिका (उत्तराखण्ड)

प्रियवृत शर्मा  
योग विज्ञान एवं तंत्रिका  
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय  
हरिहार-249402 उत्तराखण्ड

20 मई 2022

प्राचीन विज्ञान एवं तंत्रिका  
प्राचीन विज्ञान एवं तंत्रिका

## चतुर्थ पत्र

### पातंजल योगसूत्र

100 अंक

समय 3 घंटा

नोट: परीक्षक प्रत्येक इकाई से दो प्रश्न देकर एक प्रश्न करने का निर्देश देंगे जो 20 अंकों का होगा।

प्रथम इकाई - परिभाषा, चित्त एवं वृत्तियाँ

पातंजल योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा, चित्त, चित्त की भूमियाँ, चित्त वृत्तियाँ, अभ्यास-वैराग्य

द्वितीय इकाई - अंतराय, क्रिया योग एवं क्लेश

योग अंतराय, चित्त प्रसादन के उपाय, कर्म सिद्धान्त, क्रिया योग, पाँच क्लेश, ईधर का स्वरूप

तृतीय इकाई - अष्टांग योग

यम, नियम एवं आसन का स्वरूप, प्राणायाम, प्रत्याहार का स्वरूप, धारणा, ध्यान एवं समाधि का स्वरूप

चतुर्थ इकाई - समाधि के प्रकार

संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप, क्रतंभरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति, समाधि, संयम का स्वरूप

पंचम इकाई - सिद्धियाँ एवं कैवल्य

संयमजन्य सिद्धियाँ, जन्मादी पंचसिद्धि, आणिमादि अष्ट सिद्धियाँ, पुरुष का स्वरूप, कैवल्य का स्वरूप

सन्दर्भ:

योग सूत्र (तत्त्ववैशारदी) - वाचस्पति मिश्र

योग सूत्र (योग वार्तिक) - विज्ञान भिक्षु

योग सूत्र (भास्वती टीका) - हरिहरानन्द अरण्य

योग सूत्र (राजमार्तण्ड) - भोजराज

पातंजल योग प्रदीप - ओमानन्द तीर्थ

पातंजल योग विमर्श - विजयपाल शास्त्री

ध्यान योग प्रकाश - लक्ष्मणानन्द

योग दर्शन - राजवीर शास्त्री

पातंजल योग एवं श्री अरविन्द योग का तुलनात्मक अध्ययन-डा० त्रिलोकचन्द्र

पातंजल योग  
दर्शन एवं विज्ञान भिक्षु  
दर्शन विविध विद्यालय  
ज्ञानिन्द्रा-विद्यालय (३० अ०)

विभागाध्यक्ष  
योग विज्ञान विद्यालय  
इत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय  
ईड्डार-२४९४०२ उमागढ़ी

Dept.  
University of Political Sci.  
Gangtok, Sikkim, India  
E-mail: [polsci@rediffmail.com](mailto:polsci@rediffmail.com)

## पंचम पत्र

### स्वास्थ्य एवं योग चिकित्सा

समय 3 घंटा

100 अंक

नोट: परीक्षक प्रत्येक इकाई से दो प्रश्न देकर एक प्रश्न करने का निर्देश देंगे जो 20 अंकों का होगा।

#### प्रथम इकाई - स्वास्थ्य: अर्थ, परिभाषा

स्वास्थ्य का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य, व्याधि की अवधारणा, स्वास्थ्य की यौगिक अवधारणा, यौगिक जीवन शैली।

#### द्वितीय इकाई - स्वास्थ्य के आधारभूत तत्व

दिनचर्या- व्यायाम, व्यायाम एवं योगाभ्यास में अंतर, अभ्यंग, स्नान। रात्रिचर्या- ब्रह्मचर्य, निद्रा का महत्व।  
ऋतुचर्या- ऋतु अनुसार आहार-विहार, ऋतु के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप एवं प्रशामन।

#### तृतीय इकाई - स्वास्थ्य के आधारभूत तत्व

आहार की परिभाषा, गुण व शरीर हेतु उपयोगिता, आहार की मात्रा व काल, संतुलित आहार, यौगिक आहार, शाकाहार के गुण तथा मांसाहार के अवगुण।

#### चतुर्थ इकाई - रोग निवारण में योग का महत्व

व्याधियों के निवारण में यम-नियमों का महत्व, व्याधियों के निवारण में शुद्धि क्रियाओं का महत्व, व्याधियों के निवारण में आसन-प्राणायाम का महत्व, व्याधियों के निवारण में ध्यान का महत्व।

#### पंचम इकाई - रोगों के लक्षण, कारण व उनकी योग चिकित्सा।

निम्न लिखित रोगों की योग चिकित्सा- अजीर्ण, आमाशयी अम्लता, कब्ज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, गठिया, दमा, मधुमेह, मोटापा, मानसिक तनाव, अवसाद की।

#### सन्दर्भ

जीवेम शरदः शतम - पं, श्रीराम शर्मा आचार्य सम्पूर्ण वाङ्मय, खण्ड - 4।

स्वस्थवृत्त विज्ञान - प्रो. रामहर्ष सिंह

स्वस्थवृत्तम् - शिवकुमार गौड़

आहार और स्वास्थ्य - डॉ. हीरालाल

रोगों की सरल चिकित्सा - विठ्ठल दास मोदी

योग से आरोग्य - इण्डियन योग सोसाइटी

विभागाचार्य  
मा. चोता एवं वित्त विभाग  
इन्हाँ विभाग नामके त  
मानसिक विभाग (३० अ०)

विभागाचार्य  
योग विज्ञान विषय  
लाल संस्कृत विश्वविद्यालय  
फँस्ट: २४९१०२ उत्तराखण्ड

## योग क्रियात्मक-I

100 अंक

सूक्ष्म व्यायाम- पवनमुक्तासन श्रेणी-1, 2, 3

आसन- 20

सूर्य नमस्कार मंत्रों सहित, ताङ्गासन, तिर्यक ताङ्गासन, कटिचक्रासन, त्रिकोणासन वृक्षासन, गरुडासन, नटराज आसन, अर्ध चक्रासन पादहस्तासन पद्मासन, सिद्धासन स्वस्तिकासन, बज्जासन, वक्रासन, कुकुटासन, गर्भासन, बकासन, पद्म बकासन, गौमुखासन, भद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, शशांकासन, जानु शिरासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन, उत्तानपादासन, अर्ध हलासन, सेतुबंध आसन, पवनमुक्तासन, शतभासन, भुजंगासन, धनुरासन, बालासन, मकरासन, चक्रासन, पाद हस्तासन, पादांगुष्ठासन, हनुमान आसन, कूर्मासन, मयूरासन, भू नमन आसन, पर्ण शतभासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन शवासन

प्राणायामः 20

यौगिक श्वसन, नाडिशोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, सूर्यभेदन प्राणायाम, उज्जायी प्राणायाम, भखिका प्राणायाम, भास्मरी प्राणायाम

(प्राणायाम अनुपात 1:1:1, 1:4:2 )

10

तात्कालिक रूप से उद्दीयोग वक्ता मूलवंश पाश्चात्यी मद्दा काकी मद्दा सांभवी मद्दा विपरीतकरणी मद्दा

इन्हीं महारोगों-जैव ध्यान पाण मदा हृदय पथ्थी वारुणी अग्नि वाय आकाश मदा

**ध्यान : स्थूल ध्यान एवं सक्षम ध्यान (धेरेण्ड संहिता)**

10

मंत्र- सर्य मंत्र, गायत्री मन्त्र, ओंकार प्रार्थना, शांतिपाठ

10

स्त्रीविवरणी

20

1  
2.7.2020  
SC

  
विभागाध्यक्ष  
योग विज्ञान अनुसंधान  
उत्तरायण्ट गंगकल विश्वविद्यालय  
हासिर-216...2 उत्तरायण्ट

## योग क्रियात्मक-।

100 अंक

सूक्ष्म व्यायाम- पवनमुक्तासन श्रेणी-1, 2, 3 10

आसन- 20

सूर्य नमस्कार मंत्रों सहित, ताङ्गासन, तिर्यक ताङ्गासन, कटिचक्रासन, त्रिकोणासन वृक्षासन, गरुडासन, नटराज आसन, अर्ध चक्रासन पादहस्तासन पद्मासन, सिद्धासन स्वस्तिकासन, बज्जासन, वक्रासन, कुक्कुटासन, गर्भासन, बकासन, पद्म बकासन, गौमुखासन, भद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, शशांकासन, जानु शिरासन, पथिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन, उत्तानपादासन, अर्ध हलासन, सेतुबंध आसन, पवनमुक्तासन, शलभासन, भुजंगासन, धनुरासन, बालासन, मकरासन, चक्रासन, पाद हस्तासन, पादांगुष्ठासन, हनुमान आसन, कूर्मासन, मयूरासन, भू नमन आसन, पूर्ण शलभासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन शवासन

प्राणायाम: 20

यौगिक श्वसन, नाडिशोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, सूर्यभेदन प्राणायाम, उज्जायी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम

(प्राणायाम अनुपात 1:1:1, 1:4:2 )

मुद्रा-बन्ध- 10

जालंधर बन्ध, उड्ढीयान बन्ध, मूलबंध, पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, विपरीतकरणी मुद्रा  
हस्त मुद्रायें- ज्ञान, ध्यान, प्राण मुद्रा, हृदय, पृथ्वी, वारुणी, अग्नि, वायु, आकाश मुद्रा

ध्यान : स्थूल ध्यान एवं सूक्ष्म ध्यान (घेरण्ड संहिता) 10

मंत्र- सूर्य मंत्र, गायत्री मन्त्र, ओंकार प्रार्थना, शांतिपाठ 10

मौखिकी 20

विभागाध्यक्ष  
योग विज्ञान शिल्पों  
उत्तराखण्ड राज्यकला विद्यालय  
हरिहार-216002 उत्तराखण्ड

विभागाध्यक्ष  
योग विज्ञान शिल्पों  
उत्तराखण्ड राज्यकला विद्यालय  
हरिहार-216002 उत्तराखण्ड

## योग क्रियात्मक-II

100 अंक

पट्टकर्मः

30

जल नेति, सूत्र नेति, वात क्रम-व्युतक्रम कपालभाती, शीतक्रम कपालभाती, कुंजल दंड धौति, वस्त्र धौति, नौली पाठ्योजना (5 आसन, 2 प्राणायाम, 1 मुद्रा ) 20

## शिविर आयोजन

25

(अपने स्तर पर विद्यार्थी योग शिविर का आयोजन करेगा जिसकी रिपोर्ट साक्ष्यों सहित प्रस्तुत होनी चाहिए)

मौखिकी

25

~~Mr. and Mrs. [Signature] 02/20/20~~

(क्रमांक २२०५ वर्ष २८-८-८१)  
(मा० ९१२०२५ १४३)

*S* विनायक देव  
संस्कृत-विद्यालय आश्रम  
पातन्त्र-विद्यालय (प्रभाग-१)  
(डॉ सुरेश बनारस)  
(प्रो. ९२५८३६४६२७)

विभागाध्यक्ष  
दोग विहान. विभाग  
मुख्यमंत्री का दस्तावेज़  
दीर्घारा का दस्तावेज़  
(डॉ लाभाक्षर ठारा)  
(जे० - ९२५८३६९६०३)